

मैनेजमेन्ट , बीएड, एमबीए एवं बीएससी(नर्सिंग) कार्यक्रमो हेतु - इग्नू की प्रवेश परीक्षा कल

By : INVC Team Published On : 23 Sep, 2017 10:49 AM IST



आई एन वी सी न्यूज़ लखनऊ

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैनेजमेन्ट, बीएड, एमबीए एवं बीएससी(नर्सिंग) कार्यक्रमों में जनवरी 2018 सत्र प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा दिनांक 24 सितम्बर 2017 को आयोजित की जायेगी। यह परीक्षाएँ लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र के अधीनस्थ इग्नू अध्ययन केन्द्र 2720 (लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कालेज, लखनऊ) में आयोजित की जायेंगी। इन प्रवेश परीक्षाओं में इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ के अन्तर्गत 766 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं।

डॉ० मनोरमा सिंह, क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि मैनेजमेन्ट, बीएड एवं बीएससी(नर्सिंग) प्रवेश परीक्षा प्रातः 10:00 बजे से आयोजित की जायेगी, जिसमें बीएड प्रवेश परीक्षा प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक, मैनेजमेन्ट प्रवेश परीक्षा प्रातः 10:00 बजे से 01:00 बजे तक तथा बीएससी(नर्सिंग) प्रवेश परीक्षा प्रातः 10:00 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित की जायेगी। सभी पात्र अभ्यर्थियों को एसएमएस द्वारा सूचित किया गया है कि वे अपना प्रवेश पत्र इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध नवीनतम फोटो चिपकाकर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराना होगा।

डॉ० रीना कुमारी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि शनिवार, 23 सितम्बर 2017 को क्षेत्रीय केन्द्र पर एक विशेष हेल्प डेस्क बनाया गया है जहाँ अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र सम्बन्धित समस्याओं का निवारण किया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा सम्बन्धित सूचना एसएमएस अलर्ट एवं ई-मेल के माध्यम से भी दी जा चुकी है। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अपनी परीक्षा केन्द्र पर 45 मिनट पूर्व पहुँचना है तथा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार मोबाईल या अन्य उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/मैनेजमेन्ट-बीएड-एमबीए-एव/>